



EN Start Here  
TC 安裝說明


HI यहाँ आरंभ करें  
MN Энд эхэл

**Read This First**  
The ink for this printer must be handled carefully. Ink may splatter when the ink tanks are filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

請先閱讀本說明  
本印表機使用的墨水必須小心處理。在大容量墨水槽中裝填或填充墨水時，墨水可能會濺出。如果墨水碰到您的衣物或物品，可能會無法清除乾淨。

Additional items may be included depending on the location. ET-2850U does not include Windows CD-ROM.  
視乎不同位置，可能包含額外項目。ET-2850U 不包含 Windows 光碟。  
स्थान के आधार पर अतिरिक्त आइटम किए जा सकते हैं। ET-2850U Windows CD-ROM को सम्मिलित नहीं करता है।  
Байршлаас шалтгаалан, нэмэлт зүйлс агуулагдсан байж болно. ET-2850U нь Windows CD-ROM агуулаагүй болно.

The initial ink bottles will be partly used to charge the print head. These bottles may print fewer pages compared to subsequent ink bottles.  
原始墨水瓶會有一部分墨水被用於填充印字頭。這些墨水瓶可能比後來的墨水瓶列印頁數更少。  
प्रारंभिक इंक की बोतलों का उपयोग आंशिक रूप से प्रिंट हेड को चार्ज करने के लिए किया जाएगा। हो सकता है कि आने वाली बोतलों की तुलना में इन बोतलों से कुछ कम पेज प्रिंट हों।  
Хэвлэх толгойг цэнэглэхэд эхний бэхний савыг хэсэгчлэн ашиглана. Эдгээр бэхний сав нь дараагийн бэхний савтай харьцуулахад цөөн хуудас хэвлэж болно.




2 Select the printer setup method. / 選擇印表機設定方法。 /  
प्रिंटर सेटअप विधि का चयन करें। / Хэвлэгчийг тохируулах аргыг сонго.

**Do you have a smart device?**  
您擁有智慧型裝置嗎？  
क्या आपके पास कोई स्मार्ट डिवाइस है?  
Танд ухаалаг төхөөрөмж байгаа юу?

No. / 否。 / नहीं। / Үгүй.  
Go to section 2.  
前往第 2 節。  
सेक्शन 2 पर जाएं।  
2-р хэсэг рүү очно уу.

Yes. / 是。 / हाँ। / Тийм.



Hold down the button until the lamp turns on. Then use your smart device to complete the rest of the setup process.  
按住 鍵，直到燈號亮起為止。然後使用您的智慧型裝置完成其餘設定流程。  
Ⓞ बटन को लैम्प चालू होने तक दबाए रखें। इसके बाद बाकी की सेट अप प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने स्मार्ट डिवाइस का उपयोग करें।  
Гэрэл асах хүртэл товчийг дарж барина уу. Дараа нь тохиргооны үлдсэн хэсгийг дуусгахын тулд ухаалаг төхөөрөмжөө ашиглаарай.


**Epson Smart Panel**

Install Epson Smart Panel. This will help you set up the printer even if you use the printer with a computer.  
安裝 Epson Smart Panel。  
儘管您將印表機搭配電腦使用，它仍可協助您設定印表機。  
Epson Smart Panel लगाएं। इससे आपको प्रिंटर सेट अप करने में मदद मिलेगी, भले ही आप कंप्यूटर के साथ प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं।  
Epson Smart Panel суулгана уу。  
Энэ нь принтерийг компьютертой ашиглаж байсан ч хэвлэгчийг тохируулахад туслах болно.


**Epson Smart Panel ?**

You can set up the printer while watching instructions on your smart device. By using the app, you can remotely control the printer on your smart device or perform more diverse printing through the app.  
您可一邊在智慧型裝置上觀看操作說明，一邊設定印表機。透過使用此應用程式，您可在您的智慧型裝置上遠端控制印表機或透過應用程式執行更多樣的列印。  
आप अपने स्मार्ट डिवाइस पर निर्देशों को देखते समय भी प्रिंटर सेटअप कर सकते हैं। ऐप का उपयोग करके आप अपने स्मार्ट डिवाइस पर प्रिंटर को दूरस्थ रूप से नियंत्रित कर सकते हैं या ऐप के जरिए ज्यादा विविधतापूर्ण प्रिंटिंग कर सकते हैं।  
Та ухаалаг төхөөрөмж дээрээ заавар үзэж байхдаа хэвлэгчийг тохируулж болно. Аппыг-г ашигласнаар та ухаалаг төхөөрөмж дээрх принтерээ алсын зайнаас хянах эсвэл програмын тусламжтайгаар илүү олон төрлийн хэвлэх ажлыг хийж болно.

2 Follow these instructions if you selected "No" in section 1-2.  
如果您在 1 - 2 節選擇「否」，請遵循這些操作說明。  
अगर आपने सेक्शन 1-2 में "नहीं" चुना है तो इन निर्देशों का अनुसरण करें।  
Хэрэв та 1 - 2 ② хэсэгт "Үгүй" гэж сонгосон бол эдгээр зааврыг дагана уу.




Make sure that the color of the ink tank matches the ink color that you want to fill.  
確保大容量墨水槽的顏色與您要填充的墨水顏色匹配。  
सुनिश्चित करें कि इंक टैंक का रंग उस इंक के रंग से मेल खाता है जिसे आप भरना चाहते हैं।  
Бэхний савын өнгө таны цэнэглэхийг хүсэж буй хорын өнгөтэй тохирч буй эсэхийг баталгаажуул.




- Remove the cap while keeping the ink bottle upright; otherwise ink may leak.
- Use the ink bottles that came with your product.
- Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.
- 墨水瓶保持直立時，拆下瓶蓋，否則墨水可能漏出。
- 使用產品隨附的墨水瓶。
- Epson 不保證非原廠墨水的品質或可靠性。使用非原廠墨水而導致損壞，Epson 將不提供免費的保固服務。
- इंक की बोतल की कैप निकालते समय उसे सीधा रखें; वरना इंक का रिसाव हो सकता है।
- अपने प्रोडक्ट के साथ आई इंक की बोतलों का उपयोग करें।
- Epson, नकली इंक की गुणवत्ता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दे सकता। नकली इंक का उपयोग करने से क्षति हो सकती है जो Epson की वारंटी में शामिल नहीं है।
- Бэхний савыг босоо байлгаж тагийг авна; эс тэгвээс, бэх асгарч болно.
- Бүтээгдэхүүнтэй хамт ирсэн бэхний савыг хэрэглээрэй.
- Epson жинхэнэ бус хорны чанар ба найдвартай ажиллагаанд баталгаа гаргахгүй. Жинхэнэ бус бэхний хэрэглэх нь Epson-ы баталгаанд үл хамрагдах гэмтэл учруулж болзошгүй.

4 Check the upper line in the ink tank.  
檢查大容量墨水槽內的最高標示線。  
इंक टैंक की ऊपरी लाइन की जांच करें।  
Бэхний савын дээд зураасыг шалгана уу.






5 Insert the ink bottle straight into the port to fill ink to the upper line.  
將墨水瓶徑直插入填充口以填充墨水至最高標示線。  
इंक को ऊपरी लाइन तक भरने के लिए इंक बोतल को सीधे पोर्ट में डालें।  
Бэхний савыг портод шууд оруулж дээд зураас хүртэл хорыг хийнэ үү.




- When you insert the ink bottle into the filling port for the correct color, ink starts pouring and the flow stops automatically when the ink reaches the upper line.
- If the ink does not start flowing into the tank, remove the ink bottle and reinsert it. However, do not remove and reinsert the ink bottle when the ink has reached the upper line; otherwise ink may leak.
- Ink may remain in the bottle. The remaining ink can be used later.
- Do not leave the ink bottle inserted; otherwise the bottle may be damaged or ink may leak.
- 當您將墨水瓶插入正確顏色的填充口時，墨水開始流入，當墨水達到最高標示線時，會自動停止流入。
- 如果墨水未開始流入大容量墨水槽，請取出墨水瓶並重新插入墨水瓶。然而，當墨水已達到最高標示線時，請勿取出和重新插入墨水瓶；否則墨水可能會漏出。
- 墨水可能剩餘在墨水瓶中。剩餘的墨水可稍後使用。
- 請勿讓墨水瓶維持插入狀態；否則墨水瓶可能會受損或墨水可能會漏出。
- जब आप सही रंग के लिए फिलिंग पोर्ट में इंक की बोतल डालते हैं, तो इंक गिरना शुरू हो जाती है और इंक के शीर्ष लाइन तक पहुंचने पर, इंक का जाना अपने आप बंद हो जाता है।
- यदि इंक टैंक में जाना शुरू नहीं होती है, तो इंक की बोतल को निकालें और इसे फिर से डालें। हालांकि, जब इंक ऊपरी लाइन तक पहुंच जाए, तब इंक बोतल को निकालें नहीं और फिर से नहीं डालें; वरना इंक का रिसाव हो सकता है।
- बोतल में इंक बची रह सकती है। बची हुई इंक का उपयोग बाद में किया जा सकता है।
- इंक की बोतल को डाल कर नहीं छोड़ें; अन्यथा बोतल क्षतियस्त हो सकती है या इंक का रिसाव हो सकता है।
- Бэхний савыг зөв өнгийн дагуу портын амсарт урлахад хор цутгаж эхлэх ба хор дээд зурааст хүрэхэд автоматаар урсах ба болино.
- Хэрэв хор сав руу урсаж эхлэхгүй байвал, бэхний савыг салгаад дахин оруул. Гэсэн хэдий ч бэх дээд мөрөнд хүрсэн үед бэхний савыг гаргаж, дахин байрлуулж болохгүй; эс тэгвэл бэх урсаж магадгүй юм.
- Хор саванд үлдэж болно. Үлдсэн хорыг дараа ашиглаж болно.
- Бэхний савыг хийсэн байдлаар үлдээж болохгүй. Эс бөгөөс, сав гэмтэж эсвэл бэх гоожиж болно.


6 When the ink reaches the upper line of the tank, pull out the bottle.  
當墨水達到大容量墨水槽的最高標示線時，拔出墨水瓶。  
जब इंक, टैंक की ऊपरी लाइन पर पहुंच जाती है, तो बोतल को बाहर निकाल दें।  
Хор савын дээд зурааст хүрэхэд савыг салгана уу.



9 Continue to close the scanner unit even if you feel some resistance.  
繼續關閉掃描器單元，儘管您會感受到一些阻力。  
भले ही आपको कुछ रूकावट महसूस हो, फिर भी स्कैनर यूनिट को बंद करना जारी रखें।  
Хэрэв танд ямар нэгэн эсэргүүцэл мэдрэгдсэн ч гэсэн сканерын хэсгийг хаагаарай.




11 Select a language.  
選擇語言。  
भाषा का चयन करें।  
Хэл сонгоно.



12 When the message of seeing Start Here is displayed, hold down the button for 5 seconds.  
顯示查看安裝說明的訊息時，請按住 鍵 5 秒。  
यहाँ आरंभ करें संदेश दिखने पर, बटन को 5 सेकंड तक दबाए रखें।  
Энд эхэл гэсэн зурвас гарч ирэхэд товчлуурыг 5 секундын турш дарна уу.


13 Follow the on-screen instructions, and then press the button to start charging ink. Charging ink takes about 10 minutes.  
遵循螢幕上的操作說明，然後點按 鍵以開始填充墨水。填充墨水需要約 10 分鐘。

ऑन-स्क्रीन निर्देशों का अनुसरण करें, और फिर चार्जिंग इंक को चालू करने के लिए बटन को दबाएं। इंक चार्ज होने में लगभग 10 मिनट लगते हैं।  
Дэлгэц дээрх зааврыг дагаж, товчийг дарж бэхийг цэнэглэж эхэлнэ үү. Цэнэглэхэд 10 минут орчим болно.



14 When charging ink is complete, the print quality adjustment screen is displayed. Follow the on-screen instructions to perform adjustments.  
When the paper loading message is displayed, see step 13.  
填充墨水完成後，列印品質調整畫面隨即顯示。依據畫面說明執行調整。當顯示紙張放入訊息時，請參考步驟 13。  
जब इंक चार्जिंग का काम पूरा हो जाता है, तो प्रिंट गुणवत्ता एडजस्टमेंट स्क्रीन दिखाई देती है। एडजस्टमेंट शुरू करने के लिए स्क्रीन के निर्देशों का अनुसरण करें। पेपर लोडिंग संदेश के प्रदर्शित होने पर स्टेप 13 देखें।  
Хорыг цэнэглэж дуусах үед, хэвлэлтийн чанарын тохируулгын дэлгэц гарч ирнэ. Тохируулга хийхийн тулд дэлгэцийн зааварчилгааг дагана уу. Цаас ачаалах мессеж гарч ирэх үед 13 алхамыг харна уу.

15 Load paper in the rear paper feeder with the printable side facing up.  
將紙張的列印面朝上放入後方進紙槽。  
प्रिंट होने वाले भाग को ऊपर की ओर रख कर रियर फीड में पेपर लोड करें।  
Цаасыг хэвлэгдэх нүүрийг нь дээш харуулан арын цаасын тэжээл рүү ачаална.



Return the remaining paper to its package. If you leave it in the printer, the paper may curl or the print quality may decline.  
將剩餘的紙張裝回其包裝中。若將剩餘的紙張留在印表機內，紙張可能會捲曲或列印品質可能會下降。  
शेष पेपर को उसके पैकेज में वापस डालें। यदि आपने इसे प्रिंटर में छोड़ दिया, तो पेपर मुड़ सकता है या मुद्रण की गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है।  
Үлдсэн цаасыг боодолд нь эргүүлж хийнэ. Та цаасыг принтер дээр үлдээвэл, цаас үрчийж, эсвэл хэвлэлийн чанар буурч магадгүй.



- 16** If there is ink remaining in each bottle, refill the ink tank. See steps 1 to 9 in section 2.



如果每個墨水瓶中有剩餘墨水，則重新填充墨水匣。請參閱第 2 節中的步驟 1 至 9。

अगर हर एक बोतल में इंक बाकी बची हो, तो इंक टैंक को रीफिल करें। सेक्शन 2 में स्टेप 1 से 9 देखें।  
Хэрэв сав бүрт бэх үлдсэн байвал бэхний савыг дүүргэж өгнө. 2-р хэсэг дэх 1 ээс 9 алхамыг үзнэ үү.

- 17** Visit the website or use the CD supplied for Windows users to install software and configure the network. When this is complete, the printer is ready for use.



請造訪網站或使用附帶的 Windows 使用者 CD 安裝軟體和設定網路。完成操作後，印表機已做好使用準備。

सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और नेटवर्क कॉन्फिगर करने के लिए वेबसाइट पर विज़िट करें या Windows उपयोगकर्ताओं के लिए दी गई CD का इस्तेमाल करें। जब यह पूरा हो जाता है, तब प्रिंटर उपयोग के लिए तैयार हो जाता है।

Програм суулгах, сүлжээг тохируулахын тулд вэбсайт руу зочлох эсвэл Windows хэрэглэгчдэд зориулж өгсөн CD-г ашиглана уу. Энэ дуусахад принтер ашиглахад бэлэн болно.

<http://epson.sn>

## Copying / 復印 / प्रतिलिपि बना रहा है / Хуулах



- 3** Select **Copy** on the control panel. 在控制面板上選取複印。  
नियंत्रण कक्ष पर कॉपी करें चुनें।  
Хянах самбар дээрх **Хуулах** сонгоно уу.

- 4** Select **B&W** or **Color**, and then enter the number of copies. 選取黑白或彩色，然後輸入副本數量。  
द्वैक एंड क्लर चुनें और फिर कॉपी की संख्या डालें।  
B&W ба Өнгийг сонгоод хуулбарынхаа тоог оруулна уу.

- 5** Make other settings as necessary. 根據需要進行其他設定。  
आवश्यकतानुसार अन्य सेटिंग करें।  
Шаардлагатай бол бусад тохиргоог хий.

- 6** Select **Start Copying**. 選取 **開始複印**。  
कॉपी चालू करने के लिए **Start Copying** चुनें।  
Хувилж эхлэхийн тулд **Start Copying** дээр дар.

## Checking Ink Levels and Refilling Ink / 檢查墨水存量和填充墨水 / इंक के स्तर और इंक रीफिलिंग की जांच की जा रही है / Хорын түвшинг шалгах болон бэхийг дахин цэнэглэх

- 1** Check the ink levels. If any of the ink levels are below the lower line, see steps 1 to 9 in section 2 to refill the tank. 檢查墨水存量。如果任何墨水存量低於最低標示線，請參閱第 2 節內的步驟 1 至 9 以重新填充大容量墨水槽。

इंक के स्तर की जांच करें। अगर इंक का कोई भी स्तर निचले स्तर से कम है, टैंक को दोबारा भरने के लिए सेक्शन 2 में स्टेप 1 से 9 देखें।

Хорын түвшинг шалгана. Хэрэв аль нэг бэхний түвшин доод мөрөөс доогуур байвал, савыг дүүргэх 2-р хэсэг дэх 1 ээс 9 алхамыг үзнэ үү.

To confirm the actual ink remaining, visually check the ink levels in all of the printer's tanks. Prolonged use of the printer when the ink level is below the lower line could damage the printer.

若要確認實際的墨水存量，請查看所有印表機的大容量墨水槽中的墨水存量。若在墨水存量低於最低標示線時繼續使用印表機，可能導致印表機損壞。

असल में शेष इंक की पुष्टि के लिए, प्रिंटर के सभी टैंकों में इंटिग्रेट रूप से इंक स्तर की जांच करें। इंक का स्तर नीचे होने पर प्रिंटर का लंबे समय तक उपयोग करने से प्रिंटर को नुकसान पहुंच सकता है।

Хорын бодит үлдэгдлийг шалгахын тулд принтерийн савны хорын түвшинг шалгана. Хорын түвшин савны доод зураасаас доогуур байгаа үед принтерийг тасралтгүй хэрэглэх нь принтерт эвдрэл гэмтэл учруулна.

- 2** Select **Maintenance > Fill Ink** on the control panel. 從控制面板選擇維護 > 填充墨水。  
नियंत्रण कक्ष पर रखरखाव > स्थायी भरें चुनें।  
Хяналтын самбараас **Арчилгаа > Хорыг цэнэглэх** сонгоно уу.

- 3** Follow the instructions on the LCD screen to reset the ink levels. 依據 LCD 畫面上的說明重新設定墨水存量。  
इंक का लेवल रीसेट करने के लिए, LCD स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें।  
LCD дэлгэц дээрх зааврыг дагаж хорын түвшинг дахин тохируулна уу.

## Ink Bottle Codes / 墨水瓶編碼 / इंक बोतल कोड / Бэхний савны кодууд

For Europe / 對於歐洲 / यूरोप के लिए / Европид зориулсан

	BK	C	M	Y
ET-2850 Series			102	
L4260 Series			101	
ET-2850U			120	

For Australia and New Zealand

	BK	C	M	Y
			502	

For Asia / 對於亞洲 / एशिया के लिए / Азид зориулсан






	BK	C	M	Y
			001	

Use of genuine Epson ink other than the specified ink could cause damage that is not covered by Epson's warranties.

若使用非本手冊所述的 Epson 原廠墨水，而導致損壞，Epson 將不提供免費的保固服務。

असल Epson इंक की जगह अन्य इंक का इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है जो Epson की वारंटी के तहत कवर नहीं होगा।  
Epson-ы жихэнэ бэхээс өөр бэх ашиглавал эвдрэл гэмтэл учруулах бөгөөд үүнийг Epson-ы баталгаанд хамрахгүй.

## Clearing Paper Jam / 清除夾紙 / पेपर जाम हटाना / Цаас гацалтыг арилгах



## Troubleshooting / 故障排除 / समस्या निवारण / Алдаг олж засварлах

See the online *User's Guide* for detailed information. This provides you with operating, safety, and troubleshooting instructions such as clearing paper jams or adjusting print quality. You can obtain the latest versions of all guides from the following website.

若需詳細資訊，請參考 **進階使用說明**。這將為您提供操作、安全和故障排除操作說明，例如清除夾紙或調整列印品質。您可從以下網站獲取所有最新版指南。

विस्तृत सूचना के लिए ऑनलाइन **उपयोगकर्ता गाइड** देखें। इसमें आपको परिचालन की सुरक्षा और समस्या निवारण जैसे पेपर जाम होने या प्रिंट गुणवत्ता को एडजस्ट करने के निर्देश मिलते हैं। आपको नीचे दी गई वेबसाइट से सभी मार्गदर्शिकाओं के नवीनतम संस्करण प्राप्त हो सकते हैं।

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол онлайн **Хэрэглэгчийн Зааврыг** харна уу. Энэ нь танд цаасны саатлыг арилгах эсвэл хэвлэх чанарыг тохируулах зэрэг үйл ажиллагааны, аюулгүй байдлыг хангах, алдаг олж засварлах зааврыг өгөх болно. Та дараах вебсайтаас бүх гарын авлагын хамгийн сүүлийн хувилбаруудыг авах боломжтой.







<http://epson.sn>

## Support / 支援 / सहायता / Дэмжлэг

For outside Europe / 對於歐洲以外 / यूरोप के बाहर के लिए / Европоос гаднах улс орнуудад зориулсан  
<http://support.epson.net/>

For Europe / 對於歐洲 / यूरोप के लिए / Европт зориулсан  
<http://www.epson.eu/support>

## Storing and Transporting / 儲存與搬運 / भंडारण और परिवहन / Хадгалах ба тээвэрлэх



- Be sure to keep the ink bottle upright when tightening the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it. Otherwise ink may leak.
- If print quality has declined the next time you print, clean and align the print head.


- 擰緊瓶蓋時，請務必保持墨水瓶豎直。將印表機和墨水瓶單獨放於塑膠袋內，在儲存和搬運印表機時，保持印表機處於水平狀態。否則，墨水可能滲漏。
- 如果列印品質在下次列印時下降，請清潔和校准列印噴頭。

- ढक्कन को कस कर बंद करते समय इंक की बोतल को सीधा रखना सुनिश्चित करें। प्रिंटर और बोतल को प्लास्टिक बैग में अलग-अलग रखें और जब आप प्रिंटर को संग्रहीत रखें या उसे दूसरे स्थान पर ले जाएं, तब प्रिंटर का लेवल बनाए रखें। वरना इंक का रिसाव हो सकता है।

- अगर प्रिंट की गुणवत्ता खराब हो गई है, तो अगली बार प्रिंट करते समय, प्रिंट हेड को साफ और संरेखित करें।

- Тагаа чангалахдаа бэхний савыг босоо байлгах хэрэгтэй. Хэвлэгчийг байрлуулах ба хуванцар уутан дахь савыг тусад нь хадгалаад, хадгалах ба зөөхдөө хэвлэгчийн түвшинг хадгална. Үгүй бол бэх урсаж магадгүй юм.

- Хэрэв та дараагийн удаа хэвлэх үед хэвлэлийн чанар буурч байвал хэвлэлийн толгойг цэвэрлэж, тэгшлээрэй.



## Information for Users in Taiwan Only

此資訊僅適用於台灣地區

### L4260

- 產品名稱：多功能印表機
- 額定電壓：AC 100-240 V
- 額定頻率：50-60Hz
- 耗電量：

- 單機複印時：約 12 W
- 就緒模式：約 4.3 W
- 睡眠模式：約 0.7 W
- 關機模式：約 0.2 W

- 額定電流：0.4 - 0.2 A

製造年份、製造號碼和生產國別：見機體標示警語

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

### 功能規格

- 列印方式：微針點壓電噴墨技術
- 解析度：最大可達 5760 × 1440 dpi
- 適用系統：

- Windows Vista\*, Windows\* 7, Windows 8/8.1, Windows 10以上版本(32-bit, 64-bit)
- Windows XP SP3(32-bit)
- Windows XP Professional x64 Edition SP2
- Windows Server\* 2003(SP2)以上版本\*  
(\* 僅限印表機驅動程式與掃描器驅動程式。)
- Mac OS X 10.6.8以上版本

使用方法  
見內附相關說明文件

緊急處理方法  
發生下列狀況時，請先拔掉印表機的電源線並洽詢Epson授權服務中心：

- 電源線或插頭損壞
- 有液體噴灑到印表機
- 印表機掉落或機殼損壞
- 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION

地址：3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan  
電話：81-266-66-3131

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司

地址：台北市信義區松仁路100號15樓  
電話：(02) 8786-6688 (代表號)

### 注意事項

- 只能使用印表機機體上所註明的電源規格。
- 請保持工作場所的通風良好。

「限用物質含有情況」標示內容，請至下列網址查詢。  
URL：http://www.epson.com.tw/TW\_RoHS

### NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Windows\*, Windows Server\*, and Windows Vista\* are registered trademark of Microsoft Corporation.  
Mac and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Maschinenlärmformations-Verordnung 3. GBSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Для пользователей в России срок службы: 5 лет.

AEEE Yönetmeliğine Uyumundur.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilir.

Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION  
Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan  
Tel: 81-266-66-3131  
Web: http://www.epson.com/

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

